

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

जुलाई, 2019 के माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सार

महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और कार्यकलाप/ पहलें:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे और एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ द्वारा 31 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय वायु सेना सहायता-सह-प्रचार पैवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह पैवेलियन इस स्थान पर वार्षिक तौर पर आने वाले 7.5 लाख से अधिक बच्चों को आपस में जोड़ेगा और भारतीय वायुसेना के शौर्य - भारतीय वायु सेना के पास उपलब्ध अत्याधुनिक और बहुमुखी संपत्तियों का प्रदर्शन करेगा और बदले में भारतीय वायु सेना को एक कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए छात्रों को प्रेरित करेगा। **"इंडियन एयर फोर्स- कट अबव"** नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और गेम का भी शुभारंभ किया गया।
- प्रधान मंत्री अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक पैरामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों के साथ गहन बैठकें आयोजित की गईं; जिससे देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों को अपने कौशल और ज्ञान संवर्धन हेतु पहचाना जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके।
- 29-30 जुलाई को विश्व बैंक के साथ, समग्र शिक्षा और राज्यों के लिए अध्यापक शिक्षा और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना के अंतर्गत छः प्रतिभागी राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने वाले एकीकृत प्रणाली मूल्यांकन (आईएफएसए) और खरीद की प्रक्रियाएं तथा दृष्टिकोण पर और 29 जुलाई, को परियोजना के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज और डीएलआई मेट्रिक्स पर अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- सचिव, विद्युत के साथ सभी स्कूलों का 100% विद्युतिकरण सुनिश्चित करने हेतु उपायों के संबंध में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
- स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) के लिए 15 और 16 जुलाई को एनसीईआरटी में राष्ट्रीय संसाधन समूहों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस एकीकृत कार्यक्रम का लक्ष्य सभी जिलों और संघ राज्यक्षेत्रों के लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमताओं का वर्धन करना है जिसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर स्कूलों के सभी शिक्षक और प्रमुख, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के सभी संकाय सदस्य तथा ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) के अधिकारी और रिसोर्स व्यक्ति शामिल हैं।
- 1 जुलाई, 2019 को चार सहायक सचिवों ने विभाग में कार्यग्रहण किया और उन्हें विभिन्न ब्यूरो में नियुक्त किया गया। उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक परियोजनाएं सौंपी गईं। सचिव (उच्चतर शिक्षा) सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग में उनका स्वागत किया।

- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सचिवों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, ब्यूरो प्रमुखों तथा स्वायत्त संगठनों के साथ विभाग के 5 वर्षीय विजन दस्तावेज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के संबंध में अनेक बैठकें आयोजित की गईं।
- क्षेत्रीय समूह (सं.4-सामाजिक) की बैठक में 5 वर्षीय विजन योजना पर सचिव द्वारा एक प्रस्तुति की गई।
- सुगम्य भारत अभियान के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सचिवों के साथ एक वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
- एनसीईआरटी ने विभाग और सभी स्वायत्त संगठनों के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में एक प्रस्तुति दी।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 26 जुलाई को द्वारका, नई दिल्ली में नए एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) भवन का उद्घाटन किया गया और विद्यार्थी-अध्यापक पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।
- सीबीएसई द्वारा 7 जुलाई को अध्यापक अर्हता परीक्षा (सीटीईटी) के 12वें एडिशन का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से 30 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसका परिणाम 30 जुलाई, 2019 को घोषित किया गया।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन सिविल सेक्टर के तहत सीआरपीएफ, डलगांव, आसाम, रायगढ़, ओडिशा, सीआरपीएफ, सोनीपत, हरियाणा, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश और सीआरपीएफ गुड़गांव, हरियाणा में 05 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए आदेश जारी किए।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने होटल अशोक, नई दिल्ली में 8वां उप आयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- केवीएस में 6473 शैक्षणिक और 1026 गैर-शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती अभियान का परिणाम घोषित किया गया।
- एनवीएस में 2370 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती और संविदा आधार पर काउंसलर को रखने के लिए अधिसूचना जारी की गई और प्रकाशित की गई।